

मोबाइल स्लिंग पाउच बनाए



यहाँ एक अनुसाराण वीडियो है जहाँ आप अपनी सेल फोन के लिए एक गाल पट्टी थैला बनाना सीखेंगे।



शुरु करने के लिए आपको ज़रूरत होगी:

- कपड़े का एक टुकड़ा जो 9 इंच से 13 इंच तक है
- एक ही आकार के 3 टुकड़े, आपके सेल फ़ोन से कम से कम 3 इंच बड़ा, इन में से एक सम रेखित मुद्रित कपड़ा हो सकता है।
- सजावट के लिए एक बटन
- एक बांधने वाले पदार्थ के रूप में वेलक्रो का एक इंच टुकड़ा
- और गल पट्टी के लिए एक लंबा रिबन

कपड़े के 3 बराबर टुकड़े लें, और 2 ठोस टुकड़ों के बीच, मुद्रित कपड़े के साथ, एक दूसरे के ऊपर सम रेखित करें। सुनिश्चित करें कि मुद्रित कपड़े और ऊपरी ठोस कपड़े के दाएं किनारे एक दूसरे के सन्मुख हो। जैसे की आप वीडियो में देख सकते हैं। बीडेड पिन्स का उपयोग करके कपड़े की सभी परतों को एक साथ दाहिनी तरफ जोड़ें।

अब कपड़े को मशीन पर ले जाएं। स्टिच पैटर्न सिलेक्टर नॉब को A पर निर्धारित करें। और सिलाई लम्बी कोई 2 से 3 के बीच में निर्धारित करें।

कपड़ेके पिन की तरफ के किनारे को प्रेशर फुट के साथ सम रेखित कर के रखें। प्रेशर फुट को नीचे करें और सिलाई शुरू करें। जैसे जैसे आप सीते जाएं, पिन को हटाना यद् रखें। जब आप दूसरे छोर तक पहुँचते हैं, तो रिवर्स सिलाई सिलेक्टर नॉब को कुछ सिलाई उलटी दिशा में करने के लिए दबाएं। इसे छोड़ दें और अंत तक पहुँचें।

प्रेशर फुट उठाएं और कपड़े को हटा दें। धागा को थ्रेड कटर से काट लें।



अब आपने कपड़े के दाहिने तरफ सिलाई की। अब कपड़े के टुकड़ों को खोलें, और ठोस और मुद्रित कपड़े को साथ साथ रखें। इसे सपाट रखें। दोनों तरफ के किसी भी अतिरिक्त धागे को काट लें।

जब कपड़े के बड़े टुकड़े पर सिलाई वाले टुकड़े एक दूसरे के सामने, दाहिनी तरफ रखें। सीधे किनारों को सम रेखित करने के लिए जोड़ में लगाएं। टुकड़ों को पकड़ के रखने के लिये किनारों की तरफ पिन लगाएं। अब पिन की तरफ सिलाई करें। कपड़े को प्रेशर फुट पर सम रेखित करना याद रखें।

रिवर्स सिलाई सिलेक्टर नॉब के साथ सिलाई को लॉक करें। कपड़े के विपरीत छोर तक जारी रखें। सिलाई को भी नीचे के अंत में लॉक करें।

प्रेशर फुट उठा कर कपड़े कप हटा दें। धागे को थ्रेड कटर से काट लें।



सिलाई किया हुआ टुकड़ा खोलें और इसे पलट दें। और फिर लम्बी में मोड़ दें। किनारों को पूरी तरह सम रेखित करने के लिए मिलाएँ। अब फुट के नीचे कपड़े की लंबाई के अनुसार सेट करें। रिवर्स बटन का प्रयोग करें, और सिलाई को लॉक करें, और खुली तरफ से सिलाई जारी रखें।

जब आप जोड़ से पहले पहुँचते हैं तो अपनी मशीन को रोकें। संयुक्त सीम को सम रेखित करें और भट्टा को दोनों तरफ घुमाएँ। सिलाई जारी रखें।



जब आप वक्र छोर तक पहुँचते हैं, तो आकार का पालन करें। धीरे धीरे वक्र के साथ सिलाई करें। यदि आवश्यक हो तो कपड़े की पिचोत करने के लिए प्रेशर फुट उठाएं। जब तक आप प्रणाम बिंदु तक नहीं पहुँच जाते, तब तक वक्र के साथ अगली तरफ ध्यान से आगे बढ़ना जारी रखें। रिवर्स सिलाई सिलेक्टर नॉब को कम कर अंत में सिलाई को लॉक करें। प्रेशर फुट को उठाएं, कपड़ा हटा दें, और सभी अतिरिक्त धागे को काट लें।

अब आपके पास 3 तरफ सिलाई की हुई है और एक तरफ खुला है। फ्लैप को साफ़ वक्र देने के लिए नियमित दूरी पर काटें। सुनिश्चित करें कि सिलाई लाइन को काटे नहीं।

अब कपड़े को खुले तरफ ध्यान से अंदर से बाहर की ओर घुमाएँ और सुनिश्चित करें कि वाकई सही आकार में है। आकार को अच्छी तरह से ट्यून करने के लिए सीम के चारों ओर धीरे धीरे टग करने के लिए पिन का उपयोग करें। सिलाई को सपाट बनाने के लिए टुकड़ों को सलवटदार बनाएं।





एक बार जब आपके पास सही आकार हो तो शेष खुली तरफ पकड़ें और कच्चे किनारों को कपड़े के अंदर आधा इंच तक फोल्ड करें। फोल्ड किये हुए किनारों को एक साथ सम रेखित करें, और प्रेशर फुट के नीचे मोड़ को सेट करें। मोड़ को किनारे की तरफ सी लें।

फोल्ड किये हुए किनारों को एक साथ सम रेखित करें और प्रेशर फुट के नीचे मोड़ को सेट करें। मोड़ को किनारे की तरफ सिलें। कपड़े को हटाने के लिए फुट को ऊपर उठाएं और अतिरिक्त धागा काट लें।



अब दूसरी साइड के साथ सिला टुकड़ा सपाट रखे। वेल्क्रो का एक टुकड़ा लें और दो तरफ अलग करें। उलटी तरफ से वेल्क्रो को घुमावदार तरफ के केंद्र में ऊपर से 1/2 इंच की दूरी लेकर छोड़ दें।

किनारे के साथ सभी तरफ सिलाई करके वेल्क्रो को इस जगह में सी दें; खोलने के दौरान बॉक्स स्टिच अतिरिक्त ताकत देगा। कोनों के चारों ओर जाने के दौरान सुई को नीचे रखें और कपड़े को पिवोट करने के लिए प्रेशर फुट उठाएं। ये सभी कोनों पर करें।

रिवर्स सिलाई सिलेक्टर नॉब का उपयोग करके सिलाई को सुरक्षित करें।

एक बार हो जाये तो दबाये गये प्रेशर फुट को ऊपर उठाएं, कपड़ा हटा दें और सभी अतिरिक्त धागों को काट लें।



अब कपड़े के निचले हिस्से को फोल्ड करें, ताकि सिले हुए किनारे फ्लैप सीम तक पहुँच जाएं। निचले कपड़े की स्थिति को चिन्हित करने के लिए फ्लैप को मोड़ें। किनारे को चिन्हित करने के लिए एक वाटर सॉल्युबल मार्कर का प्रयोग करें।

अब वेल्क्रो के विपरीत तरफ लें और इसे निशान पर रखें। मोड़ खोलें और कपड़े को सिलाई मशीन पर ले जाएं।

वेल्क्रो के इस टुकड़े को किनारे के साथ सी लें। कपड़े को निकालें और दोनों तरफ से सभी अतिरिक्त धागों को काट लें।

टुकड़े को उलटी तरफ रखें। कपड़े को मोड़ दीजिये ताकि ऊपर की सिली लाइन मिल जाये। अब खुले पक्षों को सील कर गल पट्टी को अटैच करें। अब या तो जल्दी और आसान कार्य के लिए रिबन का उपयोग कर सकते हैं, या बचे हुए कपड़े से अपना पट्टा बना सकते हैं।





रिबन के एक छोर को लें और इसे ऊपरी किनारे के बीच में डालें। किनारे को प्रेशर फुट से सम रेखित करें और प्रेशर फुट को नीचे करें। किनारे के साथ सिलाई शुरू करें, एक रिवर्स सिलाई के साथ सिलाई सुरक्षित करें।

सिलाई के दौरान किनारे के करीब रहे। अंत तक सिलाई जारी रखें। जब आप अंत तक पहुँचते हैं, तो रिवर्स सिलाई के साथ सिलाई को बंद कर दें।

रिबन को सीधा कर लें। टुकड़े के विपरीत खुले तरफ रिबन के दूसरे छोर को डालें। इस साइड के लिए आपने जो भी किया है उसे दोहराएं और किनारों पर सिलाई के साथ कोर को सिलें। सुनिश्चित करें की आप अच्छी तरह से किनारे से मेल खाते हैं। एक बार जब आप अंत तक पहुँच जाएं तो एक रिवर्स सिलाई लें।

मशीन को रोकें और कपड़े को हटाने के लिए प्रेशर फुट उठाएं। धागे खींचें और सभी अतिरिक्त धागे काट लें।

आपका सामान्य पाउच अब तैयार है, हालाँकि यदि आप वेल्क्रो से जुड़े फ्लैप पर की सिलाई लाइन को छुपाना चाहते हैं तो आप इसे सजावटी फूल या एक सुन्दर बटन से आसानी से छुपा सकते हैं। अपने स्थानीय बिसाती की दुकान से एक रेडीमेड क्रोशिया फूल उठाएं और इसे सिलाई पर रखें। कपड़े पर गोंद का एक छोटा सा बिंदु रखें और सजावट को कपड़े पर जोड़ दें। थोड़ा दबाव डालें और कुछ घण्टो तक छोड़ दें।

आपका मोबाइल पाउच आपकी शान में 4 चाँद लगाने को तैयार है!

आप विभिन्न रंगों, कपड़े और सजावट के साथ प्रयोग कर सकते हैं। विधि वही रहेगी। जब ये हो जाता है तो इसे पहनिए और हम सभी के साथ शेयर कीजिये।